

श्री राजनिवास शिर्षा : यह सही है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं। उन पत्रों में जो दलीलें दी गई हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

**SHRI PILOO MODY:** Government were good enough to increase the age limit to 25 as recently as in May, but there are several departments of the Government which are still not seized of this particular information. For instance, the Income-tax Commissioner of Ahmedabad is supremely innocent that Government have passed such a regulation. May I know whether Government would make sure that all their departments are informed in time?

**SHRI RAM NIWAS MIRDHA:** Yes, we shall do so.

**M.R. SPEAKER:** Next question. Shri Somnath Chatterjee. The hon. Member is absent.

Next question. Shri P. M. Mehta. The hon. Member is absent. Next question. Shri Hari Singh. He is also absent. Then, Shri S. A. Muruganatham. He is also absent.

वे जो प्रश्न करने हैं इनको हाजिर रहना भी चाहिए। जो प्रश्न करते हैं, उन पर गवर्नमेंट का खर्च होता है, सब कुछ होता है।

**डा० योनिन्ध दास रिद्धाशिया :** किसी मेम्बर का प्रश्न एजेंडे पर आ गया उस प्रश्न को करने का अगले व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रश्न को लाटरी में स्थान मिल गया अगर उसका यहाँ उत्तर नहीं दिया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि किसी और का अधिकार छिन गया। अगर कोई माननीय सदस्य अस्वस्थ हो गया या किसी कारणवश आ नहीं सका और वह प्रश्न एजेंडे में आ गया तो हाउस का यह जो अधिकार है इस अधिकार को छीना नहीं जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मेम्बर नहीं आता है तो वह छिन लेता है।

Then, Q. No. 136. Shri D. K. Panda. He is absent. Then, Dr. H.P. Sharma. He is also absent.

**डा० योनिन्ध दास रिद्धाशिया :** अगर सवाल एजेंडे पर आ जाये और हाउस चाहे तो आप उस सवाल को ले लें।

**अध्यक्ष महोदय :** यह नहीं हो सकता है। रूल्स इसके बारे में बड़े क्लीयर हैं।

### Strengthening of Planning Machinery at State Level

137. **SHRI SARJOO PANDEY:** Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has decided to strengthen the planning machinery at the State level;

(b) if so, the suggestions made by the Commission in this respect; and

(c) the assistance being provided to the States for the purpose?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA):** (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) The Centre would reimburse upto two-thirds of the additional expenditure to be incurred by the States on the strengthening of the planning machinery at the State level.

### STATEMENT

The Planning Commission has made the following suggestions for strengthening the planning apparatus at the State level:

(a) There should be an apex body at the State level with the Chief Minister, the Finance Minister, the Planning Minister and technical experts representing various departments and disciplines.

(b) The work of the apex body should be supported by Steering Groups set up under the Chairmanship of technical experts preferably from outside the Government, in the fields of agriculture, industry, irrigation and power, social services transport, manpower and employment and other important functional fields. The Chairman of these Steering Groups should be members of the apex planning body described at (a) above.

(c) To ensure that the apex planning body is effective in guiding plan formulation as well as the monitoring of plan implementation, a non-official full-time Deputy Chairman should be appointed to be in charge of the apex body. The Deputy Chairman will function through the State Planning Department which should be the Secretariat of the apex planning bodies.

(d) In order to enable the Planning Department to discharge adequately its secretarial functions for the apex planning body, its strength should be suitably augmented with experts belonging to various disciplines, the Department should also be functionally reorganised into different units which should mainly be the following:

1. *Perspective Planning Unit*—dealing with preparation and updating of Resource Inventories and preparation of long-term perspective plans;
2. *Monitoring, Plan Information and Evaluation Unit*;
3. *Project Formulation Unit*—To assist various departments in the preparation of investment projects and also to conduct their *ex-ante* evaluation;
4. *Regional district Planning Unit*—to provide guidance and technical back-up to the regional and district planning authorities; and
5. *Plan Coordination Unit*—to assess the existing/anticipated level of

development, determine *inter se* priorities within an integrated strategy for the next five/one year(s), ascertain the availability of manpower, material and financial resources and synthesise spatial and sectoral plans into a balanced and operational plan.

**श्री सरजू पांडे :** जो स्टेटमेंट दिया है उस में तीन चार सुझाव दिये गये हैं राज्य सरकारों को प्लानिंग मशीनरी को स्ट्रेंगथन करने के लिए। एक सुझाव यह भी है कि एक नान ब्राफिशल चेयरमैन बनाया जाये। मैं जानना चाहता हूँ कि इस नान ब्राफिशल चेयरमैन को क्या गवर्नमेंट एप्वाइंट करेगी या उसका चुनाव होगा? किस प्रकार से वह नान ब्राफिशल चेयरमैन नियुक्त होगा?

**SHRI MOHAN DHARIA:** It is for the State Government to nominate the deputy chairman. There is no question of electing the deputy chairman.

**SHRI K. S. CHAVDA:** Will it be a Congressman or a CPI member?

**SHRI S. M. BANERJEE:** It will be a member of the Swatantra Party.

**SHRI INDRAJIT GUPTA:** Or from the Cong. (O).

**श्री सरजू पांडे :** इस बात को देखते हुए कि राज्यों और केन्द्र के बीच इस काम में सहयोग और समन्वय हो सके, क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि लोक सभा के मेम्बर और स्टेट प्रसिम्बलीज के मेम्बर साथ रह कर काम करें? ऐसी कोई योजना है कि इन सब का सहयोग भी इस काम के लिए लिया जाये?

**SHRI MOHAN DHARIA:** We have been requesting all the State Governments to involve the Members of the Assemblies and also Members of Parliament while formulating the Plan and also while the plans are implemented.

**SHRI RAMAVATAR SHASTRI:**  
They have not done so up till now.

धुम्बा राकेट केन्द्र केरल के निकट पाकिस्तान में  
निर्मित शस्त्रास्त्र तथा गोला बारूद की  
बराबरी

+

\* 140. श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा  
करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी आयुध कारखाने में  
निर्मित कतिपय शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद  
धुम्बा राकेट केन्द्र के निकट पाये गये हैं;  
और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच  
की गई है और यदि हां, तो उसके परिणाम  
क्या निकले हैं ?

युद्ध मंत्रालय और कार्मिक विभाग में  
राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्षा) :  
(क) जी हां, श्रीमान् । बताया जाता है कि  
मीडियम मशीनगन की 523 गोलियां, जिन  
पर पाकिस्तानी आयुध कारखाने के चिह्न  
समेत विदेशी चिह्न थे, बेनी झील (त्रिबेन्द्रम)  
के निकट रेत की एक खान में पायी गई थीं  
जिस समय एक ठेकेदार रेत निकाल रहा था ।

(ख) एक मामला दर्ज किया गया है  
और आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या इस  
सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ?  
इस प्रकार के जो तत्व वहां पर मौजूद हैं,  
जिन का इस में हाथ है और जिन की और  
क्या जरूरतों में संकेत भी था, क्या सरकार ने  
उन के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

श्री राम निवास मिर्षा : इस मामले के  
सम्बन्ध में केरल सरकार की पुलिस और  
प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।  
22 और 23 अक्टूबर, 1972 के बीच रात  
को ये गोलियां पाई गईं । उस के बाद पुलिस में  
मामला दर्ज किया गया और स्थानीय पुलिस  
इस के बारे में जांच कर रही है । हमारी  
केन्द्रीय एजेंसीज भी इस बारे में जांच कर  
रही हैं कि ये गोलियां कहां से आईं, वहां किस  
तरह पहुंचीं और इस में किन किस का हाथ  
है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार  
ऐसी पालिसी बनायेगी कि यदि विदेशों में  
बने हथियार या किसी प्रकार के शस्त्र भारत  
के किसी भाग में पाये जायें, तो उसकी सारी  
छानबीन केन्द्रीय सरकार आने हाथ में ले—  
वह राज्य सरकार से सहयोग ले, लेकिन जांच  
करने का पूरा काम उस को न सौंप कर स्वयं  
करे ?

श्री राम निवास मिर्षा : हमारे संविधान  
के अन्तर्गत ला एंड आर्डर का विषय राज्य  
सरकारों के कार्य-क्षेत्र में आता है । इसलिए  
इस प्रकार के जो भी मामले हों, प्राथमिक  
रूप से उन की जांच करने का दायित्व राज्य  
सरकारों का ही है । इस सम्बन्ध में राज्य  
सरकारों को जो कुछ भी मदद या सहायता  
की जरूरत होती है, वह हम हमेशा देते रहते हैं ।  
इस लिए माननीय सदस्य ने जो यह सुझाव  
दिया है कि इस प्रकार के सारे मामलों की  
जांच केवल केन्द्रीय सरकार ही करे, मेरे  
खयाल से वह हमारे संविधान के विपरीत है  
और इसलिए अमान्य है ।